



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 28) पटना, सोमवार, 11 जनवरी 2016

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

26 दिसम्बर 2015

सं0 वि०स०(का०)-06/2014-2060/वि०स०।—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-5652/2014 (सोम प्रकाश सिंह बनाम प्रमोद सिंह चंद्रवंशी) में दिनांक 18.09.2015 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में पंचदश बिहार विधान-सभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या-220, ओबरा से निर्वाचित सदस्य श्री सोम प्रकाश सिंह की सदस्यता माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन अर्जी संख्या-04/2011 (प्रमोद सिंह चंद्रवंशी बनाम सोम प्रकाश सिंह) में दिनांक 25.04.2014 को पारित न्याय निर्णय के अनुसरण में समाप्त किये जाने से संबंधित पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-वि०स०(का०)-01/2014-745, दिनांक 21.05.2014 को निरस्त करते हुए उनकी सदस्यता बहाल की जाती है। तदनुसार पंचदश बिहार विधान-सभा के माननीय सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-5652/2014 (सोम प्रकाश सिंह बनाम प्रमोद सिंह चंद्रवंशी) में पारित अंतिम न्यायादेश के आलोक में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता होगी तो तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 28-571+20-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>